

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 406 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2019—आश्विन 9, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

फा. क्र. 5141-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के झाबुआ जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारी के रूप में 193—झाबुआ (अ.ज.जा.) विधान सभा उप निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला—झाबुआ, मध्यप्रदेश  
विधान सभा उप निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम:—झाबुआ

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम व कार्यालय का नाम	श्रेणी/संवर्ग का नाम	होत्र जिराके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5
1	श्री बी.एस. निगम	सहायक वन संरक्षण, अनुसंधान विस्तार मृत झाबुआ.	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
2	श्री विरेन्द्रसिंह रावत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनप्रद पंचायत मेघनगर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
3	श्री सुशील कुमार घुरिया	पशु चिकित्सा सिविल सर्जन झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
4	डॉ. विलसन डायर	उप-संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
5	श्री जे.एस. भूरिया	सहायक प्राध्यापक शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
6	श्री एम.सी. जैन	प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि. पिटोल	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
7	श्री चालुसिंह चारेल	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
8	डॉ. चेतनसिंह अवसिर्वा	डी.ई.ओ., कृषि केन्द्र (पशु चिकित्सा सेवाएं) झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
9	श्री अश्विन चौहान	डी.ए.एस., पशु चिकित्सालय पारा	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
10	श्री विजयसिंह	सहायक संचालक, उद्यानिकी, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
11	श्री यू.सी. भाटी	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
12	डॉ. के. आर. कानुड	सहायक प्राध्यापक शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
13	श्री राजेश मावी	सांख्यिकी अन्वेषक अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
14	श्री एस.एस. भूरिया	प्राचार्य शा. उ.मा.वि. कंजावानी	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
15	श्री आर.एस. भूरिया	सहायक संचालक हाथकरपा झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
16	श्री शंकरसिंह बघेल	सहायक प्राध्यापक शा. कन्या महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
17	श्री एस. एल. मगरैया	सहा.परि.प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
18	श्री विरेन्द्रसिंह इस्कीया	महाप्रबंधक जिला व्यवसाय एवं उद्योग विभाग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
19	श्री बालुसिंह सरितिया	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
20	श्री नन्दकिशोर घनोतिया	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास योजना रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
21	श्री अश्विन्द नायक	प्रभारी प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
22	श्री जगदीश मोय	कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
23	श्री डी. एस. मेडा	प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
24	श्री इन्दरसिंह चंगोड़	कराधान सहायक, चाणिज्यकर कार्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
25	श्री नारायण बारिया	सहा.यंत्री, जल संसाधन विभाग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
26	श्री कनिया पातीवाल	खण्ड स्त्रीत समन्वयक रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
27	श्री राकेश सोनी	प्राचार्य, उ.मा.वि. देकलवड़ी	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये

अधिकारी का नाम	पद नाम व कार्यालय का नाम	सोचा/संबंध का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।
2	3	4	5
28 श्री एस. के. उजले	सहायक प्राध्यापक शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
29 डॉ० के.एल. डागोर	उपसंचालक पशु चिकित्सा सोनारु सणापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
30 श्री धीरज अखण्ड	सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
31 श्री मुकुन्द श्रीवारतव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जोबट	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
32 श्री भूरसिंह रावत	परियोजना-अधिकारी जिला पंचायत अलिराजपुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
33 श्री सादिप रावत	प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड उदयगढ़ अलीराजपुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
34 श्री एम. डी सिसोडिया	खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड रामा	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
35 श्री के.के. दिनकर	सचिव कृषि उपज मंडी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
36 श्री नूरजी खडिया	स.उ.नि. कृषि उपज मंडी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
37 श्री विक्रम सिंह रावत	अनुविभागीय अधिकारी कृषि विभाग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
38 श्री दिनेश कटारा	सहायक प्राध्यापक शा. कन्या महाविद्यालय झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
उड़न दस्ते दल (Flying Squad Team)			
1. डी.के. जैन	उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
2 उत्तम कुमार देशाया	सहायक मत्स्य अधिकारी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
3 श्री रविन्द्र सिसोदिया	उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
4 श्री महेशचंद्र जोशी	उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
5 श्री ओमप्रकाश पंचार	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्या, उपायुक्त सहकारिता झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
6 श्री गोविन्द चौधरी	सहा.वि.वि.अधि. जनपद पंचायत रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
7 श्री अंतरसिंह मण्डलोई	उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-थांदला	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
8 श्री प्रकाश देवल	ग्रा.कृ.वि. अधि. कार्या, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. मेघनगर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
9 श्री चन्द्रसिंह जामोद	वाणिज्य कर निरीक्षक वाणिज्यकर कार्या, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
स्थायी निगरानी दल (Static Surveillance Team)			
1 श्री अमनसिंह भूरिया	उपयंत्री जल संसाधन उप संभाग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
2 श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्त	उपयंत्री जनपद पंचायत रामा	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
3 श्री शैलेन्द्र चौहान	उपयंत्री जनपद पंचायत झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
4 श्री पंकज कन्नौजे	ग्रा.कृ.वि. अधि. कार्या, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रानापुर	तृतीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
5 श्री नगर सिंह डावर	सहायक परियोजना यंत्री पीआईयू लो.नि.वि. झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
6 श्री मानसिंह मुवेल	ग्रा.कृ.वि. अधि. कार्या, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी झाबुआ	तृतीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
7 श्री दीना पतले	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी कार्या, सहा.भूमि संरक्षण अधि. झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
8 श्री अनिल गुप्ता	उपयंत्री अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये

1	2	3	4	5
9	श्री मुकेश बाबु गंगोरे	मत्स्य निरीक्षक कार्या, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
10	श्री दिनेश भूरिया	ग्रा.कृ.वि. अधि. कार्या, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
11	श्री नारायणलाल पुरोहित	उपयंत्री जल संसाधन पेटलायद	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
12	श्री सायसिंह बर्डे	उपयंत्री जल संसाधन रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
13	श्री अंतिम वर्मा	उपयंत्री जल संसाधन थांदला	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
14	श्री संतोश कुमार मण्डलोई	उपयंत्री जल संसाधन थांदला	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
15	श्री विजय चौहान	उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी थांदला	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
16	श्री शैलेन्द्र पटेल	उपयंत्री बीआरसी मेघनगर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
<b>Video Surveillance Teams (VST)</b>				
1	श्री ली. के. चौहान	उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री कार्यालय जलसंसाधन, झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
2	श्री पंकज भूरिया	उपयंत्री, जनपद पंचायत झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
3	श्री करण डावर	उपयंत्री, जनपद पंचायत झाबुआ	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
4	श्री राजेन्द्र गुप्ता	उपयंत्री, जनपद पंचायत रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
5	श्री देवेन्द्र ठाकुर	उपयंत्री, जनपद पंचायत रानापुर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
6	रमेशचंद्र पाठोदे	लेखापाल कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ	तृतीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
7	श्री दशरत बोवडे	उपयंत्री, जनपद पंचायत थांदला	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
8	श्री राजेश वागेला	उपयंत्री, जनपद पंचायत मेघनगर	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये
9	श्री एल.सी.खपेड	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड पेटलायद	द्वितीय श्रेणी	वि.स.क्षेत्र 193 झाबुआ (अ.ज.जा.) के लिये

प्रबल सिपाहा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.